

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 फरवरी 2023 — माघ 13, शक 1944

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-11/2022/रास/यू-20. — इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-11/2022/रास/यू-20 दिनांक 15-12-2022 द्वारा एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम माठ, तिल्दा, रायपुर में कुलपति नियुक्ति हेतु छः सप्ताह की समयावधि में न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रो. (डॉ.) पी.बी. शर्मा, कुलपति की अध्यक्षता में खोजबीन समिति का गठन किया गया है.

2. माननीय कुलाध्यक्ष, एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम माठ, तिल्दा, रायपुर द्वारा कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम तीन ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची (पेनल) प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है.

हस्ता.

(एम. पी. पटेल)

उप-सचिव.